



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ०६ पटना, बुधवार, २० माघ १९३२ (श०)
९ फरवरी २०११ (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-१—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-५—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-१-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-७—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है।
भाग-१-ख—मैट्रिकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-१ और २, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-८—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-१-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-९—विज्ञापन
भाग-२—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-९-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-३—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-९-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-४—बिहार अधिनियम	पूरक
	पूरक-क

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

5 जनवरी 2011

सं० 1/रा.स्था.वि.स.से.(अति.प्रभार)-022/09-31—श्री इंदीवर पाठक, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पुपरी को अपने कार्यों के अतिरिक्त महाप्रबंधक, समेकित सहकारी विकास परियोजना (आई.सी.डी.पी.) शिवहर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

यह आदेश तुरत लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ललन राय, उप-सचिव।

5 जनवरी 2011

सं० 1/सह.राज.स्था.(अंके.)-43/2008-33—सुश्री पूनम कुमारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, भोजपुर, आरा (बिहार सहकारिता सेवा-अंकेक्षण) को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित 48वीं-52वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 12834, दिनांक 27 दिसम्बर 2010 (क्रमांक 70) द्वारा परीक्ष्यमान उप समाहर्ता (वेतनमान रु० 9300-34800 (पें बेंड-2).+ ग्रेड वेतन रु० 5400 में) के पद पर नियुक्ति किये जाने के फलस्वरूप उन्हें प्रभार त्याग की तिथि से वैशाली जिला अन्तर्गत व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु योगदान करने के लिए विरमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ललन राय, उप-सचिव।

5 जनवरी 2011

सं० 1/सह.राज.स्था.(अंके.)-43/2008-34—सुश्री पूनम कुमारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, भोजपुर, आरा को विभागीय अधिसूचना संख्या 33, दिनांक 5 जनवरी 2011 द्वारा विरमित किये जाने के फलस्वरूप उनके प्रभार त्याग की तिथि से जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, भोजपुर, आरा का अतिरिक्त प्रभार श्री कामेश्वर ठाकुर, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, पटना को अगले आदेश तक के लिए सौंपा जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ललन राय, उप-सचिव।

10 जनवरी 2011

सं० 1/सह.-(7)सहायक निबंधक(विरमित)- 01/2011/96—श्री मो. इरफान आलम, परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, गया अंचल, गया को सामान्य विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 12834, दिनांक 27 दिसम्बर 2010 के द्वारा क्रमांक-37 पर औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान उप-समाहर्ता के पद पर नियुक्त करते हुए व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सुपौल जिला में पदस्थापित किये जाने के आलोक में प्रभार त्याग की तिथि से इस शर्त के साथ विरमित किया जाता है कि अगर भविष्य में किसी तरह का बकाया, उनके विरुद्ध पाया गया, तो उसकी वसूली उनसे कर ली जायेगी।

2. श्री आलम के विरमित किये जाने के फलस्वरूप रिक्त हो रहे सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, गया अंचल, गया का अतिरिक्त प्रभार श्री विक्रम कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया को दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गुप्तेश्वर प्रसाद, उप-सचिव।

18 जनवरी 2011

सं० 1/निग. को. (रा.आ.)-52/2007-238—श्री संजय कुमार तत्कालीन प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., गोपालगंज के विरुद्ध प्राप्त परिवाद के जाँचोपरांत बैंक से ऋण लेकर बैंक कर्मियों द्वारा वाहन क्रय करने एवं वाहनों को

बैंक में भाड़ा पर रखने के संबंध में तथा आई.सी.डी.पी. योजनान्तर्गत गोपालगंज व्यापार मंडल में दाल मिल लगाने हेतु मार्जिन मनी बिना दाल मिल लगाये विमुक्त करने के संबंध में प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 2807, दिनांक 8 जुलाई 2008 द्वारा श्री कुमार, प्रबंध निदेशक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के क्रम में श्री कुमार, प्रबंध निदेशक, दी गोपालगंज केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., गोपालगंज ने अपने पत्रांक 509, दिनांक 2 मार्च 2009 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के सम्यक् समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक 3627, दिनांक 3 सितम्बर 2009 द्वारा राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास परियोजना, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास परियोजना ने अपने पत्रांक 598 दिनांक 16 दिसम्बर 2009 द्वारा अपना मंतव्य समर्पित किया जिसके सम्यक् समीक्षोपरांत बैंक से ऋण लेकर बैंक कर्मियों द्वारा वाहन क्रय करने एवं वाहनों को बैंक में भाड़ा पर रखने के संबंध में स्पष्ट मंतव्य किया गया कि श्री कुमार के कार्यकाल के पूर्व ही बैंक कर्मियों को वाहन हेतु ऋण एवं बैंक कर्मियों के वाहन को बैंक कार्य हेतु रखने का निर्णय लिया गया था। इसलिए इस आरोप से इन्हें मुक्त करने का तथा श्री कुमार के विरुद्ध द्वितीय आरोप आई.सी.डी.पी. योजनान्तर्गत गोपालगंज व्यापार मंडल में दाल मिल लगाने हेतु मार्जिन मनी बिना दाल मिल लगाये विमुक्त करने के संबंध में सम्यक् समीक्षोपरांत पाया गया है कि राज्य अनुश्रवण कोषांग, पटना में आयोजित बैठक के निर्णय के आलोक में सक्षम पदाधिकारी के आदेश के अनुपालन में गोपालगंज व्यापार मंडल सहयोग समितियाँ को दाल मिल का मार्जिन मनी पूर्व निर्मित गोदाम की मरम्मत के पश्चात् तत्कालीन महाप्रबंधक, समेकित सहकारी विकास परियोजना के द्वारा व्यापार मंडल के बचत खाता में हस्तान्तरित किया गया तथा संबंधित शाखा प्रबंधक को स्पष्ट निदेश दिया गया कि संबंधित राशि की निकासी अगले आदेश के बाद की जाय। जब कालान्तर में दाल मिल के जगह गैसीफायर सहित चावल मिल स्थापित करने का निर्णय लिया गया तो इस मार्जिन मनी की राशि का इस्तमाल चावल मिल के संचालन हेतु किया जाय। श्री संजय कुमार द्वारा उक्त राशि समिति के खाता में हस्तांतरित किये जाने पर समिति को ब्याज का लाभ मिला एवं राशि भी सुरक्षित रही।

उक्त आलोक में श्री संजय कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., गोपालगंज संप्रति सहायक अनुश्रवण पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास परियोजना, पटना को उक्त दोनों आरोपों से आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लियान कुंगा, विशेष सचिव।

आदेश

31 जनवरी 2011

सं० 7/नि. (विधि-03) शीर्ष सं.सं.-04/03-413—बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 की धारा-14 (10) के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी कारणवश प्रबंध समिति की पदावधि समाप्ति के बाद उक्त कालावधि के भीतर निर्वाचन नहीं हो तो समिति उक्त तिथि से स्वतः अवक्रमित समझी जाएगी तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ विधि के अनुसार नयी प्रबंध समिति के गठन हेतु छः माह से अनधिक अवधि के लिए किसी सरकारी सेवक को प्रशासक नियुक्त करेंगे। परन्तु यदि छः माह के नियत अवधि के भीतर कतिपय अतिविशेष परिस्थितिबश प्रबंध समिति के सदस्यों एवं पदधारकों का निर्वाचन नहीं होता है तो निबंधक, सहयोग समितियाँ, प्रशासक से स्पष्टीकरण लेने के पश्चात् कारणों को अभिलिखित करते हुए अवक्रमण की अवधि का विस्तार तीन माह से अनधिक अवधि के लिए कर सकेंगे।

2. राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य आयी है कि उपरोक्त प्रावधानों के तहत कुल नौ माह की अवधि के उपरांत भी कई कारणों से विभिन्न सहकारी समितियों में प्रबंध समिति का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हो पाया है, परन्तु अवक्रमण की अवधि का विस्तार नहीं होने से प्रशासक कार्यरत् नहीं रह गये हैं।

3. प्रशासक के कार्यरत् नहीं रहने के कारण प्रबंधन में शून्यता की स्थिति आ गई है। जो संस्था के हित में नहीं है। सहकारी समितियों में प्रबंधकारिणी का निर्वाचन कराने तथा प्रबंधन की शून्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से यह प्रयोजनीय है कि बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 के उपरोक्त प्रावधान को प्रभावी बनाकर उत्पन्न कठिनाई को दूर किया जाय।

4. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 10532/10, बीरेन्द्र चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में आदेश पारित करते हुए भी इस प्रसंग में विचार किया गया है कि अवक्रमण के उपरांत प्रशासक की नियुक्ति के बाद समिति को शून्यता की स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में राज्य सरकार बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 की धारा-65 (ख) में प्रदत्त शक्तियों के तहत यह आदेश जारी करती है कि :-

- (क) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना ऐसे मामलों की समीक्षा कर ऐसी सहकारी समितियों में जिनमें अधिनियम के उक्त प्रावधानों के तहत प्रशासक की नियुक्ति के उपरांत निर्धारित अवधि समाप्त होने के कारण प्रबंधन में शून्यता की स्थिति आ गई है उनमें निर्वाचन द्वारा प्रबंधकारिणी के गठन होने तक के लिए प्रशासक की पुनर्नियुक्ति की कार्यवाई करें।
- (ख) ऐसी सहकारी समितियों में प्रबंधकारिणी का निर्वाचन प्रशासक की नियुक्ति की तिथि से छः माह के भीतर निश्चित रूप से सम्पन्न कर लिया जाय।

(ग) इस आदेश को राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लियान कुंगा, विशेष सचिव।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

27 जनवरी 2011

सं० क०/स्था०-03/2008-70—किउल-बदुआ-चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण के लिए जल संसाधन विभाग की अधिसूचना सं० क०/स्था०-03/2008-138, दिनांक 28 जनवरी 2010 के द्वारा बिहार कृषक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम 1978 (बिहार अधिनियम 3, 1979) की धारा 4(i) के अन्तर्गत निदेशक पर्वद का गठन किया गया है। जिसकी कार्यावधि अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले दो वर्षों की है।

अधिनियम की धारा (i) घ के अन्तर्गत विधान मण्डलीय सदस्य के रूप में श्री सुधांशु शेखर 'भाष्कर' भूतपूर्व माननीय सदस्य बिहार विधान-सभा (सुल्तानगंज) एवं श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मण्डल, भूतपूर्व माननीय सदस्य बिहार विधान सभा (बिहपुर) मनोनित थे।

15वीं बिहार विधान-सभा चुनाव 2010 के फलस्वरूप उक्त दोनों विधान-सभा के सदस्य नहीं रह गये हैं। तदनुसार उनके रिक्त स्थानों पर निम्नरूपेण माननीय सदस्यों को विधान मण्डलीय सदस्य के रूप में अधिनियम की धारा-(i) घ के अनुसार मनोनित किया जाता है:-

1. श्री सुबोध राय, माननीय सदस्य बिहार विधान-सभा, सुल्तानगंज।
2. श्री विजय कुमार सिंह, माननीय सदस्य बिहार विधान-सभा, लखीसराय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट, सरकार के संयुक्त सचिव(प्रबंधन)।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

27 जनवरी 2011

सं० वि० प्रा० (I) व^२-62/08-220—श्री अनिल कुमार सिंह, व्याख्याता (प्रवर कोटि), यांत्रिकी नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना-13 को वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 9154 वि० (2), दिनांक 20 नवम्बर 2003 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम 227 के अन्तर्गत अध्ययनावधि दिनांक 4 अगस्त 2008 से दिनांक 4 दिसम्बर 2008 तक कुल 123 (एक सौ तेईस) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट, उप-सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचनाएं

27 जनवरी 2011

सं० ई२-1-85/2007-02-455—निर्वाचन विभाग, बिहार के अंतर्गत बिहार निर्वाचन सेवा के निम्नांकित अवर निर्वाचन पदाधिकारियों को उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय से स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के समक्ष अंकित कार्यालय में अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थपित किया जाता है :-

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन का कार्यालय	स्थानांतरण के उपरान्त पदस्थापन का कार्यालय
1	2	3	4	5
1	श्री रत्नांबर निलय, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सुपौल।	36/2004, भागलपुर	अनुमंडल कार्यालय, सुपौल	अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, निर्वाचन विभाग, पटना।

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन का कार्यालय	स्थानांतरण के उपरांत पदस्थापन का कार्यालय
1	2	3	4	5
2	श्रीमती श्वेता कुमारी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी।	37/2004, रांची (झारखंड)	जिला निर्वाचन पदाधिकारी, बांका द्वारा तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने के कारण विरमित किये जाने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से संबद्ध। पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	अवर निर्वाचन पदाधिकारी, नवगछिया अनुमंडल (जिला-भागलपुर)।
3	श्रीमती प्रियंका सिन्हा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, पटना सिटी।	38/2004, पटना	अनुमंडल कार्यालय, पटना सिटी (मुख्यालय में प्रतिनियुक्त)।	अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, निर्वाचन विभाग, पटना।
4	श्री अवधेश कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, भभुआ अनुमंडल।	39/2004, गया	अनुमंडल कार्यालय, भभुआ, जिला-कैमूर।	अवर निर्वाचन पदाधिकारी, अरवल।
5	श्री अंगद प्रसाद लोहरा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, शिवहर।	42/2004, रांची	अनुमंडल कार्यालय, शिवहर।	अवर निर्वाचन पदाधिकारी, राजगीर अनुमंडल (जिला-नालन्दा)।

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों में से श्रीमती श्वेता कुमारी पारगमन अवधि का उपभोग किये बिना संबंधित कार्यालय में अपने पद का प्रभार ग्रहण करेंगी। शेष पदाधिकारी दिनांक 25 जनवरी 2011 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस तथा दिनांक 26 जनवरी 2011 को गणतंत्र दिवस समारोह के उपरांत अपने वर्तमान कार्यालय से विरमित होंगे।

3. श्रीमती श्वेता कुमारी एवं श्री अवधेश कुमार का पदस्थापन उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर किया गया है। नियमानुसार उन्हें स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 राम कृष्ण प्रसाद, विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-
 उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-उप सचिव।

27 जनवरी 2011

सं० ई2-1-85/2007-03-456—निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या ई2-208/88 (खंड I)-14 सहपठित ज्ञापांक 4313, दिनांक 17 जून 2010 के आलोक में अवर निर्वाचन पदाधिकारी से उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् निम्नलिखित नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय से स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के समक्ष अंकित कार्यालय में उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थित किया जाता है :-

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन का कार्यालय	स्थानांतरण के उपरांत पदस्थापन का कार्यालय
1	2	3	4	6
1	श्री जितेन्द्र कुमार, नवप्रोन्नत उप-निर्वाचन पदाधिकारी	44/2004, मुंगेर	अनुमंडल कार्यालय, शेखपुरा	उप-निर्वाचन पदाधिकारी, सुपौल
2	श्री विनोद कुमार, नवप्रोन्नत उप-निर्वाचन पदाधिकारी	46/2004, जमुई	अनुमंडल कार्यालय, जहानाबाद	उप-निर्वाचन पदाधिकारी, जहानाबाद

2. उपर्युक्त पदाधिकारी पारगमन अवधि का उपभोग किये बिना संबंधित कार्यालय में अपने पद का प्रभार ग्रहण करेंगे। श्री जितेन्द्र कुमार, नव प्रोन्नत उप निर्वाचन पदाधिकारी का पदस्थापन उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर किया गया है। नियमानुसार उन्हें स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 राम कृष्ण प्रसाद, विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-
 उप-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-उप-सचिव।

27 जनवरी 2011

सं० ई२-1-85/2007-04-457—निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या ई२-1-85/2007-01 सहपटित ज्ञापांक 09, दिनांक 3 जनवरी 2011 के आलोक में अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) के पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों (जिनकी अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 48वीं से 52वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की गई थी) को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में उनके योगदान के उपरांत उनके नाम के समक्ष अंकित क्षेत्रीय कार्यालय में व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु पदस्थापित किया जाता है :-

क्रमांक	नाम	गृह जिला	पदस्थापन का स्थान (अनुमंडल कार्यालय)
1	2	3	4
1	निवेदिता सिन्हा	पटना	हाजीपुर सदर (वैशाली)
2	पूनम कुमारी	बेगूसराय	दानापुर (पटना)
3	सोहैल अहमद	सारण	समस्तीपुर सदर (समस्तीपुर)
4	अभिषेक कुमार	पूर्वी चम्पारण	बेलसंड (सीतामढ़ी)
5	पुष्कर कुमार	फतेहपुर (उ०प्र०)	बक्सर सदर (बक्सर)
6	मनिरुल शेख	पाकुड़ (झारखण्ड)	कटिहार सदर (कटिहार)
7	धीरज कुमार	पटना	जहानाबाद सदर (जहानाबाद)
8	अनिल कुमार तिवारी	बक्सर	तेघड़ा (बेगूसराय)
9	मो० गजाली	भागलपुर	बांका सदर (बांका)
10	लाल बहादुर राय	दरभंगा	मधुबनी सदर (मधुबनी)
11	प्रशांत शेखर	मुजफ्फरपुर	दरभंगा सदर (दरभंगा)
12	सत्यप्रिय कुमार	गया	मसौढ़ी (पटना)
13	संजय कुमार	वैशाली	छपरा सदर (सारण)
14	जावेद इकबाल	सिवान	गोपालगंज सदर (गोपालगंज)
15	जागृति प्रभात	नालंदा	गया सदर (गया)
16	सुरेश कुमार	रोहतास	भभुआ (कैमूर)
17	अनिरुद्ध प्रसाद यादव	कटिहार	अररिया सदर (अररिया)
18	पवन कुमार	सुपौल	सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा)
19	विकाश कुमार	मुंगेर	आरा (भोजपुर)
20	विजय कुमार	पटना	बिहार शरीफ (नालंदा)
21	मो० नजरूल हक	बांका	दलसिंहसराय (समस्तीपुर)
22	सरफराज नवाज	पटना	औरंगाबाद सदर (औरंगाबाद)
23	कृष्ण मुरारी प्रसाद	जमुई	मुंगेर सदर (मुंगेर)
24	आशीष रंजन	नालंदा	नवादा सदर (नवादा)
25	मो० अशरफ अफरोज	अररिया	बायसी (पूर्णिया)
26	विपिन कुमार	मधुबनी	खगड़िया सदर (खगड़िया)
27	परवीन जहाँ	पटना	मुजफ्फरपुर पश्चिम (मुजफ्फरपुर)
28	संजुला कुमारी	मधेपुरा	त्रिवेणीगंज (सुपौल)

क्रमांक	नाम	गृह जिला	पदस्थापन का स्थान (अनुमंडल कार्यालय)
1	2	3	4
29	जया	पटना	हिलसा (नालन्दा)
30	दिवाकर दास	जमुई	शेखपुरा (शेखपुरा)
31	संजय कुमार	शिवहर	चकिया (पूर्वी चम्पारण)
32	महेश कुमार पासवान	पूर्णिया	मधेपुरा सदर (मधेपुरा)
33	सुधीर कुमार चौधरी	नालन्दा	शिवहर (शिवहर)
34	पवन कुमार पासवान	भागलपुर	सिवान सदर (सिवान)
35	राजीव रंजन	औरंगाबाद	सासाराम (रोहतास)

2. उपर्युक्त पदाधिकारी पारगमन अवधि का उपभोग किये बिना संबंधित कार्यालय में अपने पद का प्रभार ग्रहण करेंगे।
3. संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी द्वारा उनके अंतर्गत व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पदस्थापित अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) के प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरांत एक मूल्यांकन प्रतिवेदन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. उपर्युक्त सभी अवर निर्वाचन पदाधिकारी चिकित्सा पर्यद द्वारा योग्य पाये गये हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 राम कृष्ण प्रसाद, विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-
 उप-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट, 47—571+100-डी0टी0पी0।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>